

## नीति प्रस्ताव अनुवाद

---

### एपीएनआईसी 45 में चर्चा किए जाने वाले नीति प्रस्ताव

काठमांडू, नेपाल में एपीएनआईसी 45/एप्रिकॉट 2018 में खुली नीति बैठक मंगलवार, 27 फरवरी 2018 को आयोजित की जाएगी।

एपीएनआईसी के जो सदस्य और अन्य लोग निम्नलिखित प्रस्तावों की चर्चा में भाग लेने के इच्छुक हैं, उन्हें नीति की एसआईजी मेलिंग सूची में शामिल होना चाहिए और नीति की एसआईजी बैठक में व्यक्तिगत या दूरस्थ तरीके से भाग लेना चाहिए।

### प्रॉप-123: 103/8 आईपीवी4 स्थानांतरण नीति को संशोधित किया जाए

यह प्रस्ताव 14 सितंबर 2017 से पहले किए गए डेलिगेशन्स के लिए पाँच साल के प्रतिबंध के बिना 103/8 पतों के स्थानांतरण की अनुमति देता है।

- <https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-123>

### प्रॉप-120: अंतिम /8 पूल समाप्ति योजना

इस प्रस्ताव का संस्करण 2 103/8 पूल (अंतिम /8) समाप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब अंतिम /8 से अनुरोध को पूरा नहीं किया जा सकता है, तो प्रस्ताव एक प्रतीक्षा सूची तैयार करने का सुझाव देता है जिसे पुनर्प्राप्त पूल प्रतीक्षा सूची के समान ही प्रबंधित किया जाएगा। इसलिए एपीएनआईसी दो प्रतीक्षा सूचियों का प्रबंधन करेगा - पुनर्प्राप्त पूल और अंतिम /8 पूल।

यह प्रस्ताव एपीएनआईसी से सदस्यों को प्राप्त होने वाले पतों की मात्रा में परिवर्तन नहीं करता है।

- <https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-120>

### प्रॉप-119: अस्थायी स्थानांतरण

अस्थायी स्थानांतरणों के लिए एक तंत्र बनाने का प्रस्ताव, जो संगठनों को सीधे अपने अंतर्गत सँसाधनों का पंजीकरण करने की अनुमति दे सकता है, जबकि वे संगठन इन सँसाधनों के सँरक्षक हों। यह "ग्राहक एसाइनमेंट" या पारंपरिक 'बाज़ार' स्थानांतरण के विकल्प के रूप में वाणिज्यिक रूप से किराए पर देने के लिए लागू हो सकता है।

- <https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-119>

## प्रॉप-118: एपीएनआईसी क्षेत्र में कोई आवश्यकता नहीं नीति

यह प्रस्ताव एपीएनआईसी क्षेत्र में या इसके अंदर आईपीवी4 पतों को स्थानांतरित करते समय आवश्यकता प्रदर्शित करने की ज़रूरत को हटाने के लिए है। एक अपवाद मौजूद है जहाँ यदि संसाधन एक ऐसे आरआईआर क्षेत्र से हैं जिसके लिए आवश्यकता-आधारित नीतियों की ज़रूरत हो, तो इस स्थिति में प्राप्तकर्ता को पाँच वर्षों में कम से कम 50% संसाधनों की एक उपयोग योजना उपलब्ध करानी होगी। यह नीति एएस नंबर स्थानांतरणों पर लागू नहीं होगी।

- <https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-118>

## उपयोगी कड़ियाँ

- नीति चर्चा मेलिंग सूची के सदस्य बनें
  - <https://mailman.apnic.net/mailling-lists/sig-policy>
- एपीएनआईसी 45 नीति पेज पर जाएँ
  - <https://2018.apricot.net/policy/>
- एपीएनआईसी 45 के लिए दूरस्थ भागीदारी का उपयोग करें
  - <https://2018.apricot.net/program/webcasts/>